

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जून 2023—ज्येष्ठ 26, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 5 जून 2023

प्ररूप—सोलह

[नियम 19(2) देखिए]

[धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन नगर विकास योजना बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

क्र./ 15077-TDS-06-UJN-2023-3070.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-06-UJN-2023 अर्थात् ग्राम लालपुर एवं धतरावादा क्षेत्र में बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं:—

ग्राम धतरावादा तहसील कोठी महल जिला उज्जैन				
क्र.	भू स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	योजना में सम्मिलित क्षेत्रफल
1	अजगर पिता शरीफ	114/1/1/1	1.174	
2	फारूख पिता शरीफ	114/1/2/1/1	0.599	
3	हर्षसिंह पिता एच के सिंह	114/1/2/1/2	0.575	
	बटान उपलब्ध नहीं कुल मेंसे राजमार्ग के पश्चिम की ओर		1.773	0.800
4	जाकीर पिता लालज	114/2/1.	2.087	2.087
5	राजेश पिता रणछोडलाल	116/1	0.662	0.662

6	रुस्तम पिता शेरू	116/2/1.	0.418	0.418
7	अरब अली पिता शेरू	116/2/2	0.418	0.418
8	बतुलतु बाई पति शोराब	116/3/1	0.331	0.331
9	उसमान पिता अल्लाबक्ष अमजद बा. इरफान नाबा. इसाक नाबा. बबीता बा. रूखसाना बा. हरजाना बीबा. रेहना नाबा. नसीम नाबा. पिता उसमान नाबा. सर. पिता उसमा	116/3/2	0.331	0.331
10	मंजूर अजू ली पि. अजमेरी	116/4	0.662	0.662
11	अमर सिंह छाबड़ा पिता संतसिंह छाबड़ा	116/5	0.836	0.836
12	जाफर पिता हसन	117/2	0.167	0.167
15	राज अलीशा पिता अवधेश	118/1/2	0.021	0.021
16	राज अलीशा पिता अवधेश	118/2	0.397	0.397
17	रईसाबी सरदार पत्नी सरदार फिरोज	118/5/1	0.274	0.274
18	सरदार पिता एहमद	118/5/2	0.98	0.980
19	रईसाबी सरदार पत्नी सरदार फिरोज	118/6	0.209	0.209
20	जाफर पिता हसन	131	0.502	0.502
21	अन्सार आशिक पिता उसमान बानोबाई वि उसमान व कच्चीबाई शहनाजबाई पुत्री उसमान	132/4/1	0.184	0.184
22	जाफर पिता हसन	133/1	0.878	0.878
23	जाफर पिता हसन	133/2	1.024	1.024
24	जाफर पिता हसन	134/3	0.052	0.052
25	ईसुफ पिता उमरज	137/1/1/1	0.554	0.554
26	मुंशी पिता उमरज	137/1/1/2	0.554	0.554
27	शरीफ पिता उमरजी	137/1/1/3	0.554	0.554
28	मेसर्स गुप्ता डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार श्यामसुंदर गुप्ता पिता मुन्नालाल गुप	139/1/2/1	0.192	0.192
29	मेसर्स गुप्ता डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार श्याम सुंदरगुप्ता पिता मुन्नालाल गुप	139/1/2/2	1.647	1.647
30	जॉसजॉ डिजाईन परायवेट लिमिटेड	139/2/1	1.997	1.997
31	रोमिल पिता रमेश साब	139/2/2	1.672	1.672
32	मेसर्स गुप्ता डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार श्यामसुंदरगुप्ता पिता मुन्नालालगुप	139/3	1.881	1.881
33	आई. बी. आई. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा ल	139/4/1	0.191	0.191
34	मेसर्स गुप्ता डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार श्यामसुंदर गुप्ता पिता मुन्नालालगुप	139/4/2	1.586	1.586
35	अमजदशाह पिता दिलावर शाह	143/1/1/2	0.171	0.171
36	हाफिज मोहम्मद आदिल पिता मो खुशीद	143/1/1/1	0.188	0.188
37	उस्मान पिता धना	143/1/2	0.348	0.348

38	उस्मान पिता धना	143/2/2	0.258	0.258
39	अमजदशाह पिता दिलावर शाह	143/2/1	0.247	0.247
40	यासीन पिता धन्ना	143/1/3	0.338	0.338
41	यासीन पिता धन्ना	143/2/3	0.286	0.286
42	यासीन पिता धन्ना	145/1/1	0.383	0.383
43	सरदार पिता धन्ना	145/1/2	0.383	0.383
44	उस्मान पिता धन्ना	148/1	1.306	1.306
45	उस्मान पिता धन्ना	148/2	0.052	0.052
46	चन्दलाल उत्तमानी पिता मूलचंद	149	0.763	0.763
47	मुंशी पिता अब्बास	150/1/1/1	0.043	0.043
48	अल्लाबक्ष पिता अब्बास	150/1/1/2	0.427	0.427
49	अल्लाबक्ष पिता अब्बास	150/2/1/2	0.451	0.451
50	सिकन्दर पत्नी ईशाक	150/3	0.397	0.397
51	अजीज पिता इशाक	150/4	0.053	0.053
52	असगर पिता ईशाक	150/5	0.052	0.052
53	छीताबाई बेवा फरीदाबी हेदरज हेरीन बबीत खुदाबक्ष बेवा खुदाबक्ष	150/6	0.052	0.052
54	सिकन्दर पत्नी ईशाक	150/7	0.052	0.052
55	असगर पिता ईशाक	151/1	0.444	0.444
56	अजीज पिता इशाक	151/2	0.444	0.444
57	अनारजी पिता शोभा	152/1	0.153	0.153
58	अनवर पिता सरदार पटेल	152/2	0.42	0.420
59	राजस्व रिकार्ड में क्षेत्रफल दर्शित नहीं	152/3		
60	नादरकमाल एमनाबाई मोहम्मद पिता मोहम्मद	153/1/1	1.05	1.050
61	अनारजी पिता शोभा	153/2	0.431	0.431
62	रेशमबाई पति अनारज	153/3	0.543	0.543
63	अनवर पिता सरदार पटेल	153/4	0.656	0.656
64	सुजीत कुमार जेथलिया पिता मुरलीधर जेथलिया	153/5	1.026	1.026
65	सुजीत कुमार जेथलिया पिता मुरलीधर जेथलिया	154/1	0.41	0.410
66	चारू भार्गव पति अरविंद राजमार्ग के पश्चिम की ओर	162/2/1/1	0.439	0.130
67	अकील बी पति अल्लाबक्ष पटेल	163/1/1/1	0.144	0.144
68	मुंशी पिता अब्बास	163/2/1/1/1	0.26	0.26
69	मनीषा जायसवाल पति प्रदीप जायसवाल	163/2/1/1/2	0.122	0.122
70	सोनू पति राकेश सूर्यवंशी	163/2/1/2	0.108	0.108
71	सोनू पति राकेश सूर्यवंशी	163/2/2/1	0.011	0.011
72	मनीषा जायसवाल पति प्रदीप जायसवाल	163/2/2/2	0.011	0.011

73	मनीषा जायसवाल पति प्रदीप जायसवाल	163/3/1/2	0.017	0.017
74	अल्लाबक्ष पिता अब्बास	163/3/1/1/1	0.389	0.389
75	सोनू पति राकेश सूर्यवंशी	163/3/1/1/2	0.003	0.003
76	शहनाज बी पति रईस पटेल	163/1/2	0.178	0.178
77	असगर पिता ईशाक	163/4/1	0.088	0.088
78	मुंशी पिता अब्बास	164/1/1/1	0.157	0.157
79	मनीषा जायसवाल पति प्रदीप जायसवाल	164/1/1/2	0.038	0.038
80	सोनू पति राकेश सूर्यवंशी	164/1/2	0.035	0.035
81	दाउद पिता इब्रहीम	164/407/1/1	0.178	0.178
82	शहनाज बी पति रईस पटेल	164/407/1/2	0.167	0.167
83	उस्मान पिता धना	164/407/2	0.209	0.209
84	अल्लाबक्ष पिता अब्बास	164/407/3	0.178	0.178
85	उस्मान पिता धना	165/1	0.125	0.125
86	असलम पिता दौलत	165/2	0.115	0.115
87	असलम पिता दौलत	166/1	0.136	0.136
88	असलम पिता दौलत	166/2	0.261	0.261
89	गनी पिता काल	166/3	0.021	0.021
90	असलम पिता दौलत	167/1/1	0.024	0.024
91	उस्मान पिता धना	167/1/2	0.04	0.040
92	सलीम पिता दौलत	167/1/3	0.02	0.020
93	गनी पिता काल	168/1	0.073	0.073
94	सलीम पिता दौलत	168/2	0.094	0.094
95	बशीर पिता बैली	169/1	0.157	0.157
96	अली हुसैन पिता रहमत अल	169/2	0.157	0.157
97	हाथम पिता मुंश	170	0.157	0.157
98	ममता पति चंद्रकुमार धानी	171	0.282	0.282
99	रितेश पिता रमणलाल	172/1	0.25	0.250
100	ममता पति चंद्रकुमार धानी	172/2	0.032	0.032
101	स्वाती पति राजेश	174/1	0.603	0.603
102	रूपा पति सुनिल	174/2	0.118	0.118
103	रूपा पति सुनिल	176/1/1	0.344	0.344
104	दौलत पटेल पिता इस्माईल पटेल	177/1/1	0.058	0.058
105	बशीर पिता बैली	177/1/2	0.418	0.418
106	दौलत पटेल पिता इस्माईल पटेल	177/2/1	0.17	0.17
107	दौलत पटेल पिता इस्माईल पटेल	177/2/2	0.248	0.248
108	मीना पति सुभाष	180/1/1	0.051	0.051
109	हंसा पति सुरेशचंद	180/1/2	0.015	0.015
110	हंसा पति सुरेशचंद	180/1/3	0.05	0.050
111	मोनिका पति लोकेश जैन	180/1/4	0.059	0.059
112	लोकेश पिता प्रेमकुमार	180/1/5	0.059	0.059

113	उषा पति प्रेमकुमार	180/1/6	0.059	0.059
114	पप्पू पिता दौलत	180/2/1	0.331	0.331
115	हाथम पिता मुंशी	180/2/2	0.08	0.080
116	अकबर पिता मुंशी	180/2/3	0.08	0.080
117	पप्पू पिता दौलत	182/1	0.084	0.084
118	मासूम पति दौलत	182/2,	0.136	0.136
119	मासूम पति दौलत	182/3	0.585	0.585
120	मासूम पति दौलत	183	0.397	0.397
121	मीना पति सुभाष	184/1/1	0.215	0.215
122	हंसा पति सुरेशचंद	184/1/2	0.085	0.085
123	हंसा पति सुरेशचंद	184/1/3	0.15	0.150
124	मोनिका पति लोकेश जैन	184/1/4	0.15	0.150
126	लोकेश पिता प्रेमकुमार	184/2/1/1	0.15	0.150
127	उषा पति प्रेमकुमार	184/2/1/2	0.15	0.150
128	मोहम्मदअली पिता दौलत	184/2/2	0.197	0.197
129	मनीष अग्रवाल पिता शिव अग्रवाल	185/1/1	0.28	0.280
130	अब्बासअली बड़वाहवाला पिता इस्माइल भाई बड़वाहवाला	185/1/2	0.28	0.280
131	सुबोध कुमार हरभजनका पिता नारायण दास हरभजनका	185/1/3	0.277	0.277
132	अलमास कुरैशी पति शादाब कुरैशी	186/1/1/1	0.105	0.105
133	बशीर पिता बैली	186/1/1/2	0.19	0.190

134	सोयब पटेल पिता हैदर पटेल	186/1/2	0.294	0.294
कुल निजी भूमि ग्राम घतरावदा				44.7230
1	(शासकीय) -गड्डा (पानी) 0.0310, रास्ता 0.5020	112	0.533	0.126
2	(शासकीय) - कुआ	113	0.073	0.033
3	(शासकीय) - निस्तार	115	0.533	0.533
4	(शासकीय) - नगरीय भूमि	117/1	1.777	1.777
5	(शासकीय) - नगरीय भूमि	118/3	1.045	1.045
6	(शासकीय) - नगरीय भूमि	118/4	0.418	0.418
7	(शासकीय) - नगरीय भूमि	132/1	0.209	0.209
8	(शासकीय) - नगरीय भूमि	132/2	0.334	0.334
9	(शासकीय) - नगरीय भूमि	132/3	0.585	0.585
10	(शासकीय) - नगरीय भूमि	132/4/2	0.040	0.040
11	(शासकीय) - नगरीय भूमि	134/1	0.376	0.376
12	(शासकीय) - नगरीय भूमि	134/2	0.230	0.230
13	(शासकीय) - नगरीय भूमि	134/4	0.157	0.157
14	(शासकीय) - नगरीय भूमि	135/1/1	0.308	0.308
15	(शासकीय) - नगरीय भूमि	135/1/2	0.040	0.040

16	(शासकीय) - नगरीय भूमि	135/1/3	0.080	0.080
17	(शासकीय) - नगरीय भूमि	135/2	0.084	0.084
18	(शासकीय) - नगरीय भूमि	136	0.418	0.418
19	(शासकीय) - नगरीय भूमि	137/1/2	1.651	1.651
20	(शासकीय) - नगरीय भूमि	137/2	0.627	0.627
21	(शासकीय) - नगरीय भूमि	138/1	0.199	0.199
22	(शासकीय) - नगरीय भूमि	138/2	0.188	0.188
23	(शासकीय) - नगरीय भूमि	138/3	0.190	0.190
24	(शासकीय) - नगरीय भूमि	138/4	0.186	0.186
25	(शासकीय) - नगरीय भूमि	139/1/1	3.721	3.721
26	(शासकीय) - नगरीय भूमि	139/4/3	1.892	1.892
27	(शासकीय) - निस्तार	140	0.178	0.178
28	(शासकीय) - निस्तार	141	0.993	0.993
29	(शासकीय) - नगरीय भूमि	142	2.247	2.247
30	(शासकीय) - नगरीय भूमि	144/1	1.150	1.150
31	(शासकीय) - नगरीय भूमि	144/2	1.254	1.254
32	(शासकीय)	145/2	0.766	0.766
33	(शासकीय) - नगरीय भूमि	145/3	0.767	0.767
33	(शासकीय) - नगरीय भूमि	145/3	0.767	0.767
34	(शासकीय) - नगरीय भूमि	146	0.815	0.815
35	(शासकीय) - नगरीय भूमि	147	0.930	0.930
36	(शासकीय) - नगरीय भूमि	150/1/2	1.244	1.244
37	(शासकीय) - नगरीय भूमि	150/2/2	0.490	0.490
38	(शासकीय) - नगरीय भूमि	150/2/3	0.490	0.490
39	(शासकीय) - नगरीय भूमि	164/2	0.261	0.261
40	(शासकीय) पक्का कुआ	167/2	0.084	0.084
41	(शासकीय) - रास्ता	173	0.230	0.230
42	(शासकीय) - रास्ता	175	0.157	0.047
43	(शासकीय) - निस्तार	178	0.031	0.031
44	(शासकीय) - निस्तार	179	0.679	0.679
45	(शासकीय) - काकड़	181	0.293	0.147
46	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	114/1/1/2	0.76	
47	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	114/1/2/2	0.76	
48	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	114/2/2	0.003	
49	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	153/1/2	0.006	
50	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	154/2	0.060	

51	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	162/2/1/2	0.836	
52	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	163/1/1/2	0.023	
53	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	163/3/2	0.532	
54	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	163/4/2	0.37	
55	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	176/1/2	0.141	
56	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	176/2/2	0.341	
57	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	185/2	0.015	
58	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	186/2	0.425	
कुल शासकीय भूमि ग्राम धतरावदा				28.250

ग्राम लालपुर तहसील कोठी महल जिला उज्जैन

1	सुरेश पिता चैनसिंह वरमा	13/2	0.2	0.2
2	अम्बारम पिता पत्रालाल	15/2	2.843	1.25
3	गीतादेवी पति बालकृष्ण	22/1/1/1	0.836	
4	प्रेमलता पति मोतीलाल	22/1/1/2	1.254	
5	मोतीलाल पिता भागीरथ	22/1/1/3/1	0.33	
7	सीमा उर्फ बबीता पति ब्रजेश	22/1/1/4/1	0.795	
9	ब्रजेश पंड्या पिता बालकृष्ण पंड्या	22/1/1/5	1.045	
10	महेशदिनेशसुरेश रामचन्द्र पिता रामचन्द्र	22/1/2/1	0.627	
11	लाईफ ईंटरनल ट्रस्ट एमपी कार्यालय ई.धु९३ए अरेरा कालोनी भोपाल शाखा कार्यालय 140 सेठीनगर उज्जैन अध्यक्ष गोपालसिंह ज्वेल	22/1/2/2	0.209	
14	नाम का उल्लेख नहीं	22/1/2/5	0.209	
15	परमानन्द पिता हरिराम	22/1/2/6	0.854	
16	रंजना पति सुधीर	22/1/2/7	0.314	
18	परमानन्द पिता हरिराम	22/1/4	0.200	
20	आनंद पिता बालकृष्ण	22/2/2/1	0.463	
21	राकेश कटारे पिता श्यामबिहारी कटारे	22/2/2/2	0.06	
22	नवसंवत् शिक्षा निकेतन समिति अध्यक्ष ब्रजेश पिता बालकृष्ण	22/2/3	1.045	

24	शासकीय . गीतादेवी पति बालकृष्ण	22/2/5/1	0.314	
25	सोनी पिता कन्हैयालाल	22/2/5/2	0.523	
26	ब्रजेश पंड्या पिता बालकृष्ण पंड्या	22/2/5/3	0.627	
27	गोपीबाई पति महेश चावला	22/2/5/4	1.045	
28	चंदा पति मानकलाल फुलवानी	22/2/5/5	1.045	
29	गीताबाई पति ब्रजेश आनंद	22/2/5/6	0.416	
30	संकल्प पिता सुरेन्द्रकुमार विजयपति सुरेन्द्रकुमार	22/2/6/1	1.045	
31	बरखा पति परमानंद चावला	22/2/6/2	1.045	
32	कमलाबाई पति रणछोड़	22/2/7	1.045	
33	गीताबाई नंदकिशोर चन्द्रशेखर पिता नंदकिशोर सुनीता पिता राधावल्लभ	22/2/8	0.627	
34	शासकीय . नगर भूमि सीमा	22/2/9	0.523	
	बटान उपलब्ध नहीं पंचक्रोशी मार्ग के उत्तर की ओर कुल मेंसे		17.541	1.8
35	श्रीमतिरिताशिन्डे पत्नी यशवन्त कु चित्रा शिन्डे पिता यशवन्तराव	23	2.623	2.4
कुल निजी भूमि ग्राम लालपुर				5.65

1	(शासकीय) - नगर भूमि सीमा	13/1 .	1.159	1.159
2	(शासकीय) - चरागाह	15/1 .	3.01	0.5
3	शासकीय . सडक	22/1/1/3/2	0.496	
4	शासकीय . सडक	22/1/1/4/2	0.041	
5	शासकीय . पक्का रास्ता	22/1/2/3	0.100	
6	शासकीय . स्थाई पक्का रास्ता	22/1/2/4	0.423	
7	शासकीय . पक्का रास्ता	22/1/3	0.283	
8	शासकीय . सडक	22/2/1	0.523	
कुल शासकीय भूमि ग्राम लालपुर				1.659
नगर विकास स्कीम TDS 06/UJN/2023 में सम्मिलित कुल भूमि				80.282

नोट: उपरोक्त सूची के अतिरिक्त कोई भी खसरा या उसका बटान जो कि सूची में सम्मिलित नहीं है, परंतु नगर विकास स्कीम सीमा के भीतर स्थित है, नगर विकास स्कीम में सम्मिलित माना जावेगा।

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, नगर विकास स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त अनुमति के अनुसार ही करेगा।

दिनांक 05 जून 2023

प्ररूप-सोलह

[नियम 19(2) देखिए]

[धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन नगर विकास योजना बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

क्र./15078-TDS-05-UJN-2023-1374.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-05-UJN-2023 अर्थात् ग्राम नीमनबासा एवं धतरावादा क्षेत्र में बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है:-

ग्राम निमनबासा तहसील कोठी महल जिला उज्जैन				
क्र.	भू स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल हेक्टेअर में	योजना में सम्मिलित क्षेत्रफल
1	श्रीमती आरती गोलस पति डॉ राजेश गोलस	155	0.564	0.564
2	शंकरलालसरजू बाई दर्यावसिंह पुनाजी पिता रेशमबाई	238	0.251	0.251
3	याकूब,पिता हसनखाँ	241/1/1	0.606	
4	ईस्माइल यूनूस पिता अली मोहम्मद	241/1/2	0.606	
5	ईस्माइल यूनूस पिता अली मोहम्मद	241/1/2/1	0.303	
6	ईस्माइल यूनूस पिता अली मोहम्मद	241/2/1	0.357	
7	ईस्माइल यूनूस पिता अली मोहम्मद	241/2/4	0.209	
8	ईस्माइल यूनूस पिता अली मोहम्मद	241/2/7	0.04	
9	भूरा पिता याकूब	241/2/6/1	0.02	
10	बबलू पिता याकूब	241/2/6/2	0.02	
11	आरिफ पिता युनूस	241/2/7/1	0.02	
12	आबीद पिता ईस्माइल	241/2/7/2	0.1	
13	आबीद पिता ईस्माइल	241/2/7/3	0.1	
14	आबीद पिता ईस्माइल	241/1/2/2	0.303	
15	शौकत पिता याकूब	241/2/3/1	0.105	
16	शाफी पिता याकूब	241/2/3/2	0.77	
17	जाकिर पिता याकूब	241/2/3/3	0.356	
18	कुबराबाईलिया कतशाकीर अफसर ईकबाल पिता नूरमोहम्मद	241/1/3	0.606	
19	कुबराबाईलिया कतशाकीर अफसर ईकबाल पिता नूरमोहम्मद	241/2/2	0.357	
20	कुबराबाईलिया कतशाकीर अफसर ईकबाल पिता नूरमोहम्मद	241/2/5	0.249	
	बटान उपलब्ध नहीं कुल में से		5.127	3.627
21	कालूराम सुंदरबाई पिता लक्ष्मण	242/1/1	0.281	0.281
22	शंकरलालसरजू बाई दर्यावसिंह पुनाजी पिता रेशमबाई	242/1/2	0.064	0.064
23	शंकरलालसरजू बाई दर्यावसिंह पुनाजी पिता रेशमबाई	242/2	0.334	0.334
24	कुंवरजी सीताबाई लक्ष्मीनारायण पिता भागीरथ	243/1/2/1	0.523	0.523

25	रामेश्वर वनगीबाई भागीरथ पिता भागीरथ	243/1/2/2	0.522	0.522
26	हेमराज सत्यनारायण पुरुषोत्तम नर्मदाबाई पिता ताराचंद	243/1/2/4	1.045	1.045
27	नरीमन बजीकदार पिता एरेचशाह	243/1/2/5	0.2	0.200
28	लीलाबाई महेश संजय पिता बाबूलाल	243/1/2/7	1.567	1.567
29	सिद्धेश्वर पिता कैलाशनारायण	243/4/2/1	1.779	1.779
30	मुकेश पिता कैलाशनारायण	243/4/2/2	1.779	1.779
31	शकुन्तलाबाई बेवा कैलाशनारायण	243/4/2/3	1.779	1.779
32	राजेश पिता कैलाशनारायण	243/4/2/4	0.1	0.100
33	सुभाष अग्रवाल पिता रामलाल अग्रवाल	255/1/1	0.188	0.188
34	पोखरमल पिता दुलीचन्द	255/3	0.314	0.314
35	सत्यनारायण सच्चूलाल विवेक पिता सत्यनारायण	256/1/1	0.4	0.400
36	पोखरमल पिता दुलीचन्द	256/2	0.836	0.836
37	छगनलाल पिता मगनीराम पता शंकरपुर	258/1/1	1.327	1.327
38	नर्मदाबाई पिता भगवतीप्रसादरा ठोड़	258/1/2	0.857	0.857
39	भगवतीप्रसाद पिता धन्नलाल	258/2	0.836	0.836
40	नर्मदाबाई पिता भगवतीप्रसाद राठोड़	259	0.502	0.502
41	जगदीश सुनिल सुनिता पिता कन्हैयालाल सोदराबाई पति कन्हैयालाल	260/2/1	0.405	0.405
42	केशरबाई राजेश हेमराज पिता हेमराज	260/2/2	0.404	0.404
43	गनपत पिता लछमनजी	261/1	0.27	0.270
44	भेरूलाल पिता गनपत	261/2	0.314	0.314
45	रमेश पिता गनपत	261/3	0.314	0.314
46	हेमराज पिता गनपत	261/4	0.314	0.314
47	देवनारायण पिता भंवरसिंहचौहान	262/1	0.386	0.386
48	राधाकिशन पिता पीरा	263/1	0.2	0.200
49	सत्यनारायण सच्चूलाल विवेक पिता सत्यनारायण	265	1.097	1.097
50	राजेशमुकेश लोकेश अनिता पिता ओमप्रकाश	272/1	0.637	0.470
51	भगवान पिता गोपाल	272/2	0.762	0.370
52	धीरजसिंह पिता रणजीतसिंह	476/1	1.24	0.122
53	मुकेशसिंह बबीता दिलीपसिंह शिव कुवरबाई पिता दिलीपसिंह विजयसिंह संतोषसिंह शिवकुवर बाबूसिंह	483/1	0.24	
54	रामप्रकाश पिता लक्ष्मणनारायण	483/2	0.836	
55	सत्यवतीदेवी पति तारेन्द्रनाथ	483/2/1	1.568	
56	अशोकसिंह धीरजसिंह पिता वकीलसिंह	483/3/1	0.418	
57	आनंद यादव पिता मोहनलाल यादव	483/3/2	0.418	
	बटान उपलब्ध नहीं कुल मेंसे		3.48	2.400
58	छगन सिंह पिता बुल्लू सिंह	483/519/3	0.732	0.370
59	सुन्दरलाल पिता राधाकिशन	484/ 1	0.941	0.941
60	मनीबाई पति केशाराम	484/ 2	1.045	1.045
61	संमुद्रसिंह पिता उत्तमसिंह	485/1	0.756	0.643

62	विजय चंदरबाई सोमाबाई पिता बनेसिंह	485/2	2.09	2.090
63	श्रीमती शोभा अटल पत्नी स्व. राजेंद्रसिंह	485/3	1.732	1.732
64	पुष्पाबाई प्रेमसिंह संजयसिंह अजयसिंह बेवा प्रेमसिंह	487/1	0.658	0.658
65	संमुद्रसिंह सिं पिता उत्तमसिंह	487/2	0.209	0.209
66	पुष्पाबाई प्रेमसिंह संजय सिंह अजयसिंह बेवा प्रेमसिंह	488	0.857	0.370
67	संमुद्र सिंह सिं पिता उत्तमसिंह	489/1/1	0.462	
68	पुष्पाबाई प्रेमसिंह संजय सिंह अजयसिंह बेवा प्रेमसिंह	489/2/1	0.132	
	बटान उपलब्ध नहीं कुल मेंसे		0.594	0.274
69	पुष्पाबाई प्रेमसिंह संजय सिंह अजयसिंह बेवा प्रेमसिंह	490/1	0.3	0.300
70	संमुद्र सिंह सिं पिता उत्तमसिंह	490/2	0.337	0.337
71	संमुद्र सिंह सिं पिता उत्तमसिंह	491/1	0.182	0.182
72	श्रीमती रेशमबाई पति कन्हैयालाल मदनलाल ईश्वरलाल दरबार प. कन्हैयालाल	491/2	0.773	0.773
73	श्रीमती रेशमबाई पति कन्हैयालाल मदनलाल ईश्वरलाल दरबार प. कन्हैयालाल	491/3,	0.366	0.366
74	श्रीमती शोभा अटल पत्नी स्व. राजेंद्रसिंह	491/4/1	0.167	0.167
75	श्रीमती शोभा अटल पत्नी स्व. राजेंद्रसिंह	491/4/2	0.027	0.027
76	मुकेश सिंह बसिं बीता दिलीप सिंह शिवकुवर बाई पिता दिलीपसिंह विजय सिंह संतोष सिंह शिवकुवर बाबू सिंबू	492/1	0.115	0.115
77	याकूब पिता हसनखाँ	493/3	0.185	
78	कैलाश सिंह पिता उत्तमसिंह	493/4/1	0.001	
79	कैलाशसिंह समुन्द्रसिंह पिता उत्तमसिंह संजयसिंह अजयसिंह पिता प्रेमसिंह पुष्पाबाई बेवा प्रेमसिंह रोहित सिंह रविन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह शोभाबाई पति राजेन्द्रसिंह	493/5/1	0.212	
80	कुबराबाई तियाकत शाकिर अफसर इक़बाल पिता नूरमोहम्मद	493/6	0.936	
81	इस्माइल यूनुस पिता अली मोहम्मद	493/7/1	0.092	
82	ईस्माइल यूनुस पिता अली मोहम्मद	493/7/2	0.093	
	बटान उपलब्ध नहीं कुल मेंसे राममार्ग के पश्चिम की ओर		1.519	0.065
83	जाकिर पिता याकूब	497/1/1/1/1	0.187	
84	भूरा पिता याकूब	497/1/1/1/2	0.187	
85	बबलू पिता याकूब	497/1/1/1/3	0.187	
86	शफी पिता याकूब	497/1/1/1/4	0.187	
87	शौकत पिता याकूब	497/1/1/1/5	0.186	
88	याकूब पिता हसन खाँ	497/1/1/1/6	0.037	
	बटान उपलब्ध नहीं कुल मेंसे		0.971	
89	राजेंद्रभारती पिता शिवराज भारती	497/2/1	0.033	0.033
90	राजेंद्रभारती पिता शिवराज भारती ,राजमार्गद्व	497/2/2	0.124	
91	प्रेमसिंह कैलाशसिंह समुन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह पिता उत्तमसिंह	498/1	0.021	0.021
92	श्रीमती रेशमबाई पति कन्हैयालाल मदनलाल ईश्वरलाल दरबार प. कन्हैयालाल	498/2/1	0.261	0.261
93	श्रीमती रेशमबाई पति कन्हैयालाल मदनलाल ईश्वरलाल दरबार प. कन्हैयालाल	499	0.721	0.721
94	श्रीमती रेशमबाई पति कन्हैयालाल मदनलाल ईश्वरलाल दरबार प. कन्हैयालाल	500/1/1	0.669	0.669

95	अजय गुप्ता पिता के एस गुप्ता	500/1/2/ 1	0.041	0.041
96	अंतर चन्द्र पिता भगवान नाबासरपर माता सम्पतबाई पति भगवान	500/1/2/ 2	1.422	1.422
97	राजेन्द्रभारती पिता शिवराज भारती	500/2/1/1	1.377	1.377
98	राजेन्द्रभारती पिता शिवराज भारत बटान उपलब्ध नहीं	500/2/2/1	1.137	
99	नौशाद नसीबपिता अल्लारखा समी पुत्री अल्लारखा	503/1/1	0.977	
100	राधाकृष्णन गृहनिर्माण सहकारी समिति उज्जैन अरविन्द चैहान पिता अध्यक्ष पिता स्व सरदार सिंह चैहान	503/2	0.488	
101	राधाकृष्णन गृहनिर्माण सहकारी समिति उज्जैन अरविन्द चैहान पिता अध्यक्ष पिता स्व सरदार सिंह चैहान	503/4	0.001	
102	खुदावक्श पिता एहमद पटेल	503/3/1	0.679	
103	राधाकृष्णन गृहनिर्माण सहकारी समिति उज्जैन अरविन्द चैहान पिता अध्यक्ष पिता स्व सरदार सिंह चैहान	503/3/2	0.306	
104	राधाकृष्णन गृहनिर्माण सहकारी समिति उज्जैन अरविन्द चैहान पिता अध्यक्ष पिता स्व सरदार सिंह चैहान	503/4	0.001	
	बटान उपलब्ध नहीं कुल मेंसे राममार्ग के पश्चिम की ओर		2.452	0.550
105	मोरफीकमंसुरी पिता युसुफ	504/1	1.38	1.380
106	बाबूलाल पिता रूगनाथ	504/2/ 1	0.474	0.474
107	जमीलाबी पति मोहम्मदरफीक	504/2/ 2	0.474	0.474
108	जमीलाबी पति मोहम्मदरफीक	504/2/ 3	0.474	0.474
109	राजाराम पिता रूगनाथ	504/2/ 4	0.474	0.474
110	रूपसिंह पिता रूगनाथ	504/2/ 5	0.474	0.474
111	मयाराम पिता रूगनाथ	504/2/ 6	0.473	0.473
112	चंदनलाल पिता नारायणदास	505	0.606	0.606
113	मानसिंह पिता बापूसिंह	506	0.157	0.157
114	शायरबाई पति प्रहलाद जीवनसुनिसु ल पिता प्रहलाद	507/ 1	1.139	
115	चतरबाई पति रमेशचन्द्र	507/ 2/1	0.023	
116	चतरबाई पति रमेशचन्द्र	507/ 3/1	0.022	
	बटान उपलब्ध नहीं कुल मेंसे राजमार्ग के पश्चिम की ओर		1.184	0.350
117	शंकरलालसरजू बाई दर्यावसिंह पुनाजी पिता रेशमबाई	511	0.167	0.167
	कुल निजी भूमि ग्राम निमनवासा			48.003
1	शासकीय . नगरीय भूमि	243/1/2/3	1.368	1.368
2	शासकीय . नगरीय भूमि	243/1/2/6	1.045	1.045
3	शासकीय . नगरीय भूमि	255/1/2	0.648	0.648
4	शासकीय . नगरीय भूमि	255/2	0.313	0.313
5	शासकीय . नजूल	256/1/2	2.035	2.035
6	शासकीय . नगरीय भूमि	257	1.620	1.620
7	शासकीय . नगरीय भूमि	260/1	1.260	1.260
8	शासकीय . नगरीय भूमि	262/2	0.429	0.429

9	शासकीय . नगरीय भूमि	263/2	3.196	3.196
10	शासकीय . नजूल चरनोई	264	1.379	1.379
11	शासकीय. नगरीय भूमि	266/1	1.333	1.333
12	शासकीय. नगरीय भूमि	266/2/1	1.332	1.332
13	शासकीय. नगरीय भूमि	266/2/2	0.188	0.188
14	शासकीय . निस्तार . बंजर	267	2.466	2.466
15	शासकीय . निस्तार	268	0.105	0.105
16	शासकीय-	269	0.031	0.031
17	शासकीय . निस्तार	270	0.042	0.042
18	शासकीय . नाला	271	0.449	0.449
19	शासकीय . नाला	477	1.317	0.240
20	शासकीय . बंजर	486	1.024	0.310
21	शासकीय . निस्तार . बंजर	509	1.244	0.600
22	शासकीय श्री रजाक शाहदर गाह पिता पीर कृषि कुआ	510	8.769	8.769
23	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	476/2	0.432	
24	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	489/1/2	0.168	
25	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	489/2/2	0.168	
26	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	492/2	0.073	
27	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	493/4/2	0.857	
28	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	493/5/2	0.017	
29	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	497/1/1/2	0.382	
30	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	497/1/2/2	0.022	
31	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	498/2/2	0.053	
32	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	500/2/1/2	0.086	
33	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	500/2/2/2	0.086	
34	शासकीय . गड्डा पानी राजमार्ग	501	0.669	
35	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	502/2	0.209	
36	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	503/1/2	0.496	
37	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	507/2/2	0.186	
38	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	507/3/2	0.187	
कुल शासकीय भूमि ग्राम निमनवासा				29.158

ग्राम धतरावदा तहसील कोठी महल जिला उज्जैन				
1	नोशाद पिता इसाक	3/1	1.045	1.045
2	नोशाद पटेल पिता इसाक पटेल	4/1	0.056	0.056
3	रज्जाक पिता मोहम्मद	5/2/1	0.018	0.018
4	कुवराबाई पिता ईस्माईल बायपास के पश्चिम की ओर	16/1	1.139	0.780
5	शकीनाबाई पति लालज बायपास के पश्चिम की ओर	17/1/1	0.959	0.132
6	इरफान पटेल पिता फारुख पटेल	19/1/1/1	0.087	
7	ओमप्रकाश चैहान पिता शिवसिंह चैहान	19/1/1/2	0.087	
8	रमेशचंद्र राठोर पिता गोपाल राठोर	19/1/1/3	0.044	
9	अमजद पटेल पिता जाकिर पटेल	19/1/1/4	0.044	
	बटान उपलब्ध नहीं कुल मेंसे बायपास के पश्चिम की ओर		0.262	0.080
10	गनी इसाक इमामुद्दीन पिता आशिक	111/2/1	0.052	0.052
11	संतसिंह पिता हंसराजसिंह	111/3	0.105	0.105
	कुल निजी भूमि ग्राम धतरावदा			2.268
1	शासकीय	2	1.463	0.600
2	शासकीय	111/1	0.261	0.261
3	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	3/2	0.021	
4	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	4/2	0.049	
5	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	5/1	0.157	
6	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	5/2/2	0.097	
7	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	6/1/2	0.261	
8	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	6/2/2	0.033	
9	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	16/2	0.627	
10	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	17//1/2	0.671	
11	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	19/1/2	0.205	
12	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	19/2/2	0.055	
13	शासकीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन	111/2/2	0.011	
	कुल शासकीय भूमि ग्राम धतरावदा			0.861
	नगर विकास स्कीम – TDS05/UJN/2023 में सम्मिलित कुल भूमि			80.290

नोट: उपरोक्त सूची के अतिरिक्त कोई भी खसरा या उसका बटान जो कि सूची में सम्मिलित नहीं है परंतु नगर विकास स्कीम सीमा के भीतर स्थित है, नगर विकास स्कीम में सम्मिलित माना जावेगा। कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, योजना में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेगा।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम बापुलाल बंजारा जो मेरी बीमा पॉलिसी में दर्ज है तथा अन्य दस्तावेज में मेरा नया नाम मांगीलाल बंजारा (MANGILAL BANJARA) दर्ज है. इस प्रकार मैंने अपना नया नाम ग्रहण कर लिया है, सो मुझे मेरे परिचित, रिश्तेदार, समाजजन, नये परिवर्तित नाम मांगीलाल बंजारा के नाम से जाने पहचाने व पुकारें.

पुराना नाम

(बापुलाल बंजारा)
(BAPULAL BANJARA)

नया नाम

(मांगीलाल बंजारा नग्गा बंजारा)
निवासी-ग्राम जोरावतपुरा पंचायत सेमली,
तहसील नीमच, जिला नीमच (म.प्र.).

(G-1094)

नाम परिवर्तन

यह है कि मेरी पुत्री के शैक्षणिक अंकसूची में उसका कुलनाम भट्ट लिखा है, वह सही है, लेकिन माता-पिता का कुलनाम भी भट्ट लिखा है, जबकि मेरा नाम नरेश शर्मा व मेरी पत्नी का नाम प्रीती शर्मा है. मेरे व मेरी पत्नी के सभी दस्तावेजों में जैसे कि शैक्षणिक अंकसूची, आधारकार्ड, पेनकार्ड, वोटरकार्ड आदि में सत्य व सही है. अतः मेरी पुत्री की अंकसूची में मेरे व मेरी पत्नी के नाम के आगे से भट्ट सरनेम हटाते हुए 'शर्मा' कुलनाम लिखा जावे.

पुराना नाम

(नरेश भट्ट, प्रीती भट्ट)

नया नाम

(नरेश शर्मा, प्रीती शर्मा)
पुत्र-श्री राधेश्याम शर्मा,
निवास-सी. एच. 13, दीनदयाल नगर,
ग्वालियर (म.प्र.)

(G-1095)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अरुण सिंह सोलंकी पिता बनेसिंह सोलंकी था. जो कि अब परिवर्तित होकर रुद्र प्रताप सिंह पिता बनेसिंह हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम रुद्र प्रताप सिंह पिता बनेसिंह से ही जाना, पहचाना जाये.

पुराना नाम

(अरुण सिंह सोलंकी)
पिता-बनेसिंह सोलंकी.

नया नाम

(रुद्र प्रताप सिंह)
पिता-बनेसिंह.
ग्राम-सिरोलिया, जिला देवास म.प्र.

(G-1096)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम लता सिंह पत्नी श्री राकेश कुमार सिंह, निवासी मकान नं. 5, भगत सिंह नगर एक्सटेंशन, भिण्ड रोड, ग्वालियर म.प्र. की हूँ. मेरे समस्त दस्तावेज लता सिंह के नाम से बने हुए हैं, जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, बैंक खाता इत्यादि यह कि Reliance Industries Limited के शेयर्स में मेरा नाम लता कुशवाह दर्ज है. वर्तमान में मुझे लता सिंह के नाम से जाना पहचाना जाता है, भविष्य में भी मुझे लता सिंह के नाम से ही जाना जाये.

पुराना नाम

(लता कुशवाह)

नया नाम

(लता सिंह)

(G-1097)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म Race पता—R-26, G1/G-2, Basement At SBI Colony, M.P. Nagar , Zone-2, Opp. Railway Track, Bhopal-462011 (M .P.) R eg. N o. 01/01/01/0075/19, दिनांक 22-05-2019 द्वारा दिनांक 06-06-2023 को कार्यालय पता परिवर्तन कर पता—H. No. 4, Maanasa, Janki Nagar, Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal (M.P.) 462016 कर लिया है.

Mr. Mohana Rao Makarapu,

(Partner)

H. No. 4, Maanasa, Janki Nagar, Chuna Bhatti,
Kolar Road, Bhopal (M.P.).

(G-1098)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र नरेन्द्र विश्वकर्मा के समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम करन सिंह (KARAN SINGH) एवं पत्नी का नाम रुखमणी बाई (RUKHAMANI BAI) दर्ज है जो गलत है.

अतः अब मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम टन्टी लाल विश्वकर्मा (TANTI LAL VISHWAKARMA) एवं पत्नी का नाम रुकमणी बाई (RUKMANI BAI) दर्ज है. जो सही है.

अतः यही नाम मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(करन सिंह)

(KARAN SINGH)

(रुखमणी बाई) (RUKHAMANI BAI)

नया नाम

(टन्टी लाल विश्वकर्मा)

(TANTI LAL VISHWAKARMA)

(रुकमणी बाई) (RUKMANI BAI)

(G-1099)

नाम परिवर्तन

मैं, विनोद वेगी पिता श्री गोपीलाल वेगी पहले मेरा समस्त दस्तावेजों में नाम विनोद वाल्मीक दर्ज था. चूंकि मेरा आधार कार्ड विनोद वेगी के नाम से बना हुआ है तथा मैंने अपनी अंकसूची, बैंक पासबुक तथा समस्त दस्तावेजों में अपना नाम विनोद वेगी दर्ज करा लिया है.

अतः अब से मेरे नाम को विनोद वाल्मीक के स्थान पर विनोद वेगी पढ़ा एवं लिखा जाये.

भवदीय

(विनोद वेगी)

पिता—श्री गोपीलाल वेगी,
निवासी—वार्ड नं. 15, ग्राउंड के पास,
पोस्ट शाहगढ़, बण्डा, सागर (म.प्र.).

(G-1100)

CHANGE OF NAME

I, Mrs. Jannat Rupani W/o Mr. Prashant Rupani hereby declare that before marriage my name was Ku. Rajni Mulani D/o Mr. Asan Das Mulani. I got married according to Hindu customs with Mr. Prashant Rupani & After Marriage my name has been changed as Mrs. Jannat Rupani W/o Mr. Prashant Rupani, after marriage I known as Mrs. Jannat Rupani W/o Mr. Prashant Rupani for all purposes on every records.

Old Name
(RAJNI MULANI)

New Name
(JANNAT RUPANI)
Resident of B-New 46/474, Ara Machine Road,
Sant Hirdaram Nagar, Bairagarh, Bhopal (M.P.).

(G-1101)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह पूर्व नाम शालिनी सराटे था. विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती शालिनी सेन पत्नी संजीव कुमार सेन हो गया है. अतः मुझे भविष्य में सभी दस्तावेज में शालिनी सेन के ही नाम से जाना, पहचाना जाए.

(शालिनी सेन)

पत्नी-संजीव कुमार सेन,
निवासी-एच-11, सयाद्री परिसर फेस-2,
भदभदा रोड, भोपाल म.प्र.

(G-1102)

नाम परिवर्तन

मैं, चंद्रशेखर आखरे पिता निलकंठ आखरे है, जो मेरे आधारकार्ड, राशन कार्ड, समग्र आई.डी., शालेय रिकार्ड, बैंक, स्थानीय निवासी, आय प्रमाण-पत्र व शासकीय/अर्द्धशासकीय पत्रों में दर्ज है, जबकि मेरी पुत्री एवं पुत्र (वैष्णवी पिता शेखर आखरे एवं वेदांत पिता शेखर आखरे) के शालेय रिकार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., जन्म प्रमाण-पत्र में पिता का नाम शेखर आखरे है. यह कि चंद्रशेखर आखरे एवं शेखर आखरे दोनों नाम से मुझे जाना, पहचाना जाता है. यह दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चंद्रशेखर आखरे के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम
(शेखर आखरे)

नया नाम
(चंद्रशेखर आखरे)

(G-1103)

नाम परिवर्तन

मैं, हेमलता पुत्री श्री बाबूलाल, आयु वयस्क, निवासी वार्ड नंबर-22, गंजबासौदा, जिला विदिशा म.प्र. की निवासी हूँ. मेरी पुत्री की हाई स्कूल की मार्कशीट (10वीं) में मेरी पुत्री का नाम शबनम मिर्धा एवं मेरा नाम हिना मिर्धा उल्लेखित है, जबकि मेरी पुत्री शबनम के नाम से जानी पहचानी जाती है एवं मैं, हेमलता कलावत के नाम से जानी, पहचानी जाती हूँ. मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, समग्र आई.डी. में मेरी पुत्री का नाम शबनम ही उल्लेखित है, जो मेरी पुत्री का नया नाम होगा एवं मेरा नाम मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेज में हेमलता कलावत है.

अतः मैं, नये नाम शबनम माता हेमलता कलावत के नाम से जानी, पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(शबनम मिर्धा)
माता-हिना मिर्धा.

नया नाम
(शबनम)
माता-हेमलता कलावत.

(G-1104)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमति अंजली खरे W/o श्री अजय कुमार खरे, मेरा विवाह के पहले नाम कु. संध्या श्रीवास्तव D/o श्री रामनारायण श्रीवास्तव था, जो कि MP बोर्ड द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की अंक सूची में दर्ज है, मेरा श्री अजय कुमार खरे S/o श्री नारायण खरे के साथ विवाह हुआ विवाह उपरांत घर में मेरा नाम अंजु खरे/अंजली खरे रहा एवं मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता श्रीमती अंजली खरे के नाम से बने हैं, अतः अब मेरे नाम को श्रीमती अंजली खरे पढ़ा जावे।

सूचनाकर्ता

(अंजली खरे)

W/o—श्री अजय कुमार खरे
MIG 7 के सामने द्वारिका बिहार,
तिली रोड, सागर (म.प्र.).

(G-1105)

उपनाम परिवर्तन

मैं, शबनम कुरैशी, D/o रहीस खान, पहले मेरा समस्त दस्तावेजों में नाम शबनम खान दर्ज था। चूंकि मेरा आधार कार्ड, शबनम कुरैशी नाम से बना है तथा मैंने अपने समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम शबनम कुरैशी दर्ज करवा लिया है। अतः अब से मेरे नाम को शबनम खान के स्थान पर शबनम कुरैशी पढ़ा एवं लिखा जाये।

सूचनाकर्ता

(शबनम कुरैशी)

D/o—रहीस खान,
हाउस नं. 15, वार्ड नं. 6 सोनी पेट्रोल पंप के पास
लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, बंडा, सागर (म.प्र.).

(G-1106)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम सुधांशु भुन्देले एवं मेरी माता का नाम विनीता भुन्देले एवं पिता का नाम अरविन्द कुमार भुन्देले डला है, जो कि गलत है। अब से मैं, अपना नाम परिवर्तित करके सुधांशु शर्मा एवं माता विनीता शर्मा एवं पिता का नाम अरविन्द शर्मा करना चाहता हूँ। अतः आज से मुझे सुधांशु शर्मा के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम

(सुधांशु भुन्देले)

पिता का नाम—अरविन्द कुमार भुन्देले
माता का नाम—विनीता भुन्देले

(G-1107)

नया नाम

(सुधांशु शर्मा)

पिता का नाम—अरविन्द शर्मा
माता का नाम—विनीता शर्मा

आम सूचना

मेसर्स क्लेम्स निदान जो, एक पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म है, जिसका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0018-22 है।

सर्वसाधारण को मेरे द्वारा सूचित किया जाता है कि, किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन क्लेम्स निदान से करते समय मैं, पार्टनर रवि तिवारी से ही करें।

सर्वसाधारण को मेरे द्वारा सूचित किया जाता है कि, मेसर्स क्लेम्स निदान जो एक पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म है। उसका पुनःगठन 01-04-2023 को पार्टनर अश्विन कौशल के रिटायरमेंट से और पार्टनर मंजू तिवारी के आगमन से हो गया, जिसका गठन नई पार्टनरशिप डीड में हो गया है। रिटायरिंग पार्टनर अपनी मर्जी से पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हुए हैं और मैं पार्टनर रवि तिवारी एवं पार्टनर मंजू तिवारी के पक्ष में फर्म की संपत्ति छोड़ गए हैं जो कहीं भी दान, गिरवी, बंधक, हिबा नहीं है।

पार्टनर रवि तिवारी एवं पार्टनर मंजू तिवारी, सर्वसाधारण को सूचित कर रहे हैं कि अब हम दोनों ही कलेम्स निदान के पार्टनर हैं, 01-04-2023 के बाद पंजीकृत हुए प्रकरणों का अब किसी भी तरह का फर्म से संबंधित वित्तीय लेनदेन में पार्टनर रवि तिवारी एवं पार्टनर मंजू तिवारी से ही किया जाए.

फर्म में 31-03-2023 तक पंजीकृत हुए सभी प्रकरणों का निपटारा फर्म के पुराने पार्टनर्स श्री रवि तिवारी और श्री अश्विन कौशल द्वारा किया जा रहा है और जल्द ही इनका निपटारा दोनों पुराने पार्टनर्स द्वारा कर दिया जाएगा.

(रवि तिवारी)

मैनेजिंग पार्टनर.

(G-1108)

आम सूचना

फर्म मेसर्स चिकारा ग्रुप, 05 सिविल लाइन्स, तहसील व जिला-सागर जिसका पं. क्रमांक 00157-13, दिनांक 11 फरवरी 2013 है. उक्त फर्म के भागीदार श्री देवी सींग यादव पुत्र श्री मूलचंद यादव का निधन दिनांक 25-09-2018 को हो जाने से वे दिनांक 25-09-2018 से फर्म से अलग हो गए हैं. पूर्व में नव दुनिया समाचार पत्र दिनांक 02-08-2022 में प्रकाशित सूचना में उन्हें दिनांक 20-04-2022 से अलग होने की सूचना त्रुटिवश प्रकाशित की गयी थी, जिसे सुधार उपरांत उपरोक्तानुसार पढ़ा जावे. सूचना फर्म के भागीदारों एवं फर्म से जुड़े व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रकाशित है.

फर्म मेसर्स चिकारा ग्रुप,

(चंद्रशेखर यादव)

भागीदार,

05, सिविल लाइन्स,

सागर (म.प्र.).

(G-1109)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स वर्धमान इन्डस्ट्रीज अप्सरा टाकीज के सामने, भगवानगंज, सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 06-09-01-00013-09 सन् 2009-2010, दिनांक 10-06-2010 पर पंजीकृत है. उक्त फर्म में पंजीयन के समय श्री कमल कुमार जैन, श्री प्रकाश चंद जैन, श्री सतेन्द्र कुमार जैन व श्रीमती आशा जैन भागीदार थे. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 31-03-2020 को श्री कमल कुमार जैन व श्री प्रकाश चंद जैन स्वेच्छा से फर्म के भागीदारी से पृथक हो गये. उक्त दिनांक 31-03-2020 को श्री प्रासुक जैन, श्रीमती राजुल जैन व श्रीमती कल्पना जैन फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया. वर्तमान में फर्म में श्री सतेन्द्र कुमार जैन व श्रीमती आशा जैन, श्री प्रासुक जैन, श्रीमती राजुल जैन व श्रीमती कल्पना जैन भागीदार हैं. फर्म के भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है.

फर्म मेसर्स वर्धमान इन्डस्ट्रीज,

(सतेन्द्र कुमार जैन)

भागीदार,

अप्सरा टाकीज के सामने, भगवानगंज,

सागर (म.प्र.).

(G-1110)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम कमला रघुवंशी था, अब प्रियंका रघुवंशी के नाम से जाना जावे. शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम प्रियंका रघुवंशी से जाना जावे.

पुराना नाम
(कमला रघुवंशी)

नया नाम
(प्रियंका रघुवंशी)
पति-महेन्द्र रघुवंशी

पता :- E-8, इंडस एम्पायर, गुलमोहर भोपाल.

(G-1111)

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY Given that the partnership firm M/s SHIVASHEESH INFRA SERVICES Registered office at 67, Maruti Nagar, Dewas (MP) 455001 which was constituted vide partnership deed executed on 6th October, 2017 and duly registered at Ujjain in the Assistant Registrar of Firms bearing No. 07/38/01/0141/18 Dated 24/02/2018 and the initial partners were Smt. Ritu Agrawal W/o Shri Rajesh Agrawal, Shri Giriraj Mangal S/o Shri Mohan Lal Mangal, Shri Omprakash Yadav S/o Shri Hira Lal Yadav and Smt. Jayshree Sharma W/o Shri Gaurav Sharma.

In this partnership firm subsequently on 01-04-2022 the partners- Shri Gajendra Singh Parihar S/o Shri Pop Singh Parihar, Shri Gaurav Sharma S/o Shri Saty Narayan Sharma and Smt. Simran Nenani W/o Shri Ravi Nenani has joined the firm and the partners: Shri Giriraj Mangal S/o Shri Mohan Lal Mangal and Smt. Jayshree Sharma W/o Shri Gaurav Sharma voluntarily retired from the firm w.e.f. 01-04-2022 vide Reconstituted Partnership Deed executed on 1st day of April, 2022.

Further, on 27th day of January, 2023 the partners: Smt. Sheetal Singhal W/o Shri Nitish Singhal has joined the firm and Shri Omprakash Yadav S/o Shri Hira Lal Yadav and Smt. Simran Nenani W/o Shri Ravi Nenani voluntarily retired from the firm w.e.f. 27/01/2023 vide Reconstituted Partnership Deed executed on 27th day of January, 2023.

Further, take Notice that the said business will be carried on by continuing partners under the old name and style.

For SHIVASHEESH INFRA SERVICES
(RITU AGRAWAL)

W/o Shri Rajesh Agrawal
(Partner)

33/A, Kalani Bagh, Dewas (M.P.).

(G-1112)

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY Given that the partnership firm M/s SANWARIYA DEVCON Registered office at Survey No. 195/2 & 198/3, Tilwadiya Road, Khategaon, Distt., Dewas (M.P.) 455336 which was constituted vide partnership deed executed on 11th December, 2019 and duly registered at Ujjain in the Assistant Registrar of Firms bearing No. 07/38/05/0142/23, Dated 10-01-2023 and the initial partners were Shri Gopal Agrawal S/o Shri Laxmi Chand Agrawal, Shri Pratik Mittal S/o Shri Santosh Mittal, Smt. Mona Agrawal D/o Shri Rambubu Agrawal, Shri Abhishek Agrawal S/o Shri Ashok Agrawal,

Shri Sunil Yadav S/o Shri Daya Shankar Yadav, Shri Devendra Kumar Garg S/o Shri Vishnu Prasad Garg, Shri Sachin kumar Choubey S/o Shri Ganesh Prasad Choubey, Shri Sanjay Bansal S/o Shri Bhikam Chand Bansal and Smt. Mamta Tiwari D/o Shri Shivprasad Pathak.

In this partnership firm subsequently on 21-01-2023 the partner- Shri Pradeep Kumar Sisodiya S/o Shri Kachrulal Sosodiya has joined the firm and the partners: Shri Abhishek Agrawal S/o Shri Ashok Agrawal and Shri Sanjay Bansal S/o Shri Bhikam Chand Bansal voluntarily retired from the firm w.e.f. 21-01-2023 vide Reconstituted Partnership Deed executed on 21st day of January, 2023.

Further, take Notice that the said business will be carried on by incoming and continuing partners under the old name and style.

For SANWARIYA DEVCON
(GOPAL AGRAWAL)

S/o Shri Laxmi Chand Agrawal
(Partner)

5, Narmada Colony Near Police Station,
Khategaon, Distt. Dewas (M.P.).

(G-1113)

नाम परिवर्तन

मैं, साक्षी चाँदवानी (SAKSHI CHANDWANI) पत्नी अश्वनी चाँदवानी (ASHWANI CHANDWANI) सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम उषा दौलतानी पुत्री श्री तेजभान दौलतानी था जो मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. मेरा विवाह श्री अश्वनी चाँदवानी के साथ हो जाने से विवाह उपरांत मेरा नाम साक्षी चाँदवानी पत्नी श्री अश्वनी चाँदवानी हो गया है. भविष्य में मैं, इसी नाम साक्षी चाँदवानी के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी साक्षी चाँदवानी एवं उषा दौलतानी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे सभी शैक्षणिक, प्रमाण पत्र, शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम उषा दौलतानी के स्थान पर साक्षी चाँदवानी लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(उषा दौलतानी)

नया नाम
(साक्षी चाँदवानी)
नाट्य कला मंदिर के सामने,
दालबाजार, ग्वालियर.

(G-1114)

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक देशमुख सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मैंने मेरा नाम निम्नानुसार परिवर्तित कर लिया है. मेरा पूर्व नाम शंकर राव देशमुख (SHANKAR RAO DESHMUKH) पिता भाऊराव देशमुख था. जो कि मेरे सभी शैक्षणिक प्रपत्रों में अंकित है, अब मेरा नया नाम दीपक देशमुख (DEEPAK DESHMUKH) है. जो कि मेरे आधार, वोटर आईडी आदि में हो गया है. अतः अब से मुझे मेरे इसी नाम से जाना व पहचाना जाएगा.

पुराना नाम
(शंकर राव देशमुख)

नया नाम
(दीपक देशमुख)
पिता-भाऊराव देशमुख.
निवासी-आष्टा, तहसील मुलताई,
जिला बैतूल, (मध्यप्रदेश).

(G-1115)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामसिया शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व गजट प्रकाशन में हमारे द्वारा लिपिक त्रुटि के कारण प्रकाश शर्मा के पिता का नाम रामसिया के स्थान पर सियाराम हो गया था. इस विज्ञप्ति के उपरांत उसे सियाराम के स्थान पर रामसिया लिखा, पढ़ा और पुकारा जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों. (09 जून 2023) (G-1063).

पुराना नाम

(प्रकाश कुमार शर्मा)

(G-1116)

नया नाम

(प्रकाश शर्मा)पुत्र—श्री रामसिया शर्मा,
पता—ग्राम व पोस्ट प्रपोध,

तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नरेश कटारे कान्स्ट्रक्टर्स जो सिंहपुर रोड, मुरार, ग्वालियर है. जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/00007/05, दिनांक 28-04-2005 है. जिसमें दिनांक 01-04-2023 को भागीदार नरेश कटारे पुत्र स्व. श्री विशम्भर दयाल कटारे, निवासी सिंहपुर रोड, मुरार, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं आम एव सर्वजन सूचित हों.

मेसर्स नरेश कटारे कान्स्ट्रक्टर्स,

(नरेश कटारे)

भागीदार,

सिंहपुर रोड, मुरार, ग्वालियर,

(G-1117)

नाम परिवर्तन

मैं, शुभ नारायण पाण्डेय तनय स्व. श्री अनिरुद्ध पाण्डेय, निवासी RB-II-91-C रेल्वे कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) का हूँ. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रेल्वे के सर्विस रिकार्ड में मेरे एवं मेरे पिताजी का अपूर्ण नाम शुभ नारायण तनय श्री ए. पाण्डेय दर्ज हो गया है, जबकि मेरा एवं मेरे पिताजी का सही नाम शुभ नारायण पाण्डेय तनय श्री अनिरुद्ध पाण्डेय है. शुभ नारायण पाण्डेय तनय श्री अनिरुद्ध पाण्डेय ही पढ़ा जाए. मेरे रेल्वे के सर्विस रिकार्ड में भी अपूर्ण नाम शुभ नारायण तनय श्री ए. पाण्डेय के स्थान पर सही नाम शुभ नारायण पाण्डेय तनय श्री अनिरुद्ध पाण्डेय पढ़ा जाए.

पुराना नाम

(शुभ नारायण पाण्डेय)

Subh Narayan

तनय श्री ए. पाण्डेय

S/o A. Pandey.

(G-1118)

नया नाम

(शुभ नारायण पाण्डेय)

Shubh Narayan Pandey

तनय श्री अनिरुद्ध पाण्डेय

S/o Anirudh Pandey.

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम ध्रुव अग्रवाल (DHRUV AGRAWAL) पिता प्रशांत अग्रवाल (PRASHANT AGRAWAL) लिखा व पढ़ा जाता था, जिसे निजी कारणों से बदलकर ध्वनित अग्रवाल (DHWNIT AGRAWAL) पिता प्रशांत अग्रवाल

(PRASHANT AGRAWAL) कर लिया है, जिसके बाद अब मुझे अपने परिवर्तित नाम ध्वनित अग्रवाल (DHWNIT AGRAWAL) पिता प्रशांत अग्रवाल (PRASHANT AGRAWAL) से ही जाना व पहचाना जाये व मेरे द्वारा परिवर्तित नाम ही लिखा व उपयोग किया जायेगा.

पुराना नाम
(ध्रुव अग्रवाल)
(DHRUV AGRAWAL)

नया नाम
(ध्वनित अग्रवाल)
(DHWNIT AGRAWAL)
पिता प्रशांत अग्रवाल
पता-MIG-6, वार्ड नंबर-25, लक्कड़ गंज,
इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.).

(G-1119)

उपनाम परिवर्तन

सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि मैं, अनिल कुमार चौहान, आत्मज स्व. श्री पूरन लाल चौहान, निवासी बीना, जिला सागर मध्यप्रदेश के स्कूल और सर्विस रिकॉर्ड्स में नाम केवल 'अनिल कुमार' के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें मेरा उपनाम नाम शामिल नहीं है, लेकिन मेरे अन्य सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा अंतिम नाम दर्ज है. अब से मुझे मेरे नया व पूरे नाम 'अनिल कुमार चौहान' से जाना व पहचाना जावे. सभी शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अनिल कुमार)

नया नाम
(अनिल कुमार चौहान)

(G-1120)

NOTICE

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms "M/S Om Prakash Menghani" of Bhopal vide Reg. No. 01-01-01-00072-08 year 2008-2009 date of Registration 28/07/2008 undergone the following changes:-

1. That Shri Om Prakash Menghani S/o Shri Hari Das is expired and both the remaining partners mutually decided not to dissolve and proceed with the affairs of the partnership firm. Since both the remaining partners of the firm are sons of the deceased partner, the balance standing in the capital account of the deceased partner on that date is transferred to the remaining partners in the proportion of profit sharing ratio of this deed with mutual consent. w.e.f. 11-01-2023.
2. That the Corporate office of the firm is shifted of MIG 5/20, Munshi Premchand Parisar, Nayapura, Lalghati, Bhopal-462030 w.e.f. 01-05-2023.

"M/s. Om Prakash Menghani",
(SOMESH MENGHANI)
(Partner).

(G-1121)

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार श्रीमती शबीना तनवीर साझेदार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शीबा पेट्रोल पम्प का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं भोपाल में पंजीयन क्र. 01-01-01-0164-19, दिनांक 31-07-2019 को पंजीकृत है. जिसका व्यावसायिक पता 159, काजी कैम्प बैरसिया रोड, भोपाल है. इसमें साझेदार के रूप में परिवर्तन किया

जा रहा है. इस फर्म में आज दिनांक 31-01-2023 को हमारे पूर्व साझेदार लईक अहमद आत्मज जहूर अहमद पता 13, कसाईपुरा गली नं. 02 इस्लामपुरा, भोपाल के स्थान पर नये साझेदार के रूप में श्री फेज अकील अहमद आत्मज अकील अहमद जिनका पता म. नं. 13 कसाईपुरा गली नं. 02 इस्लामपुरा, भोपाल है. अतः यह मेरी साझेदारी दिनांक 31-01-2023 से संशोधन हो चुकी है. सर्वसाधारण को सूचित हो.

मेसर्स शीबा पेट्रोल पम्प,

(शबीना तनवीर), (फैज अकील अहमद)

भागीदार, नवीन भागीदार

पता-159, काजी कैम्प, बैरसिया रोड,

भोपाल (म.प्र.).

(G-1122)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचनार्थ है कि पूर्व में मेरा नाम "मिस प्रियंका कुमारी" था, विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर "प्रियंका जायसवाल पति श्री उत्पल नयन प्रकाश" हो गया है. भविष्य में मुझे प्रियंका जायसवाल पति श्री उत्पल नयन प्रकाश के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे. नाम परिवर्तन के समर्थन में तथा भविष्य में अन्य विधिक प्रक्रियाओं की पूर्ति हेतु यह सूचना प्रकाशित करवाई गई.

पुराना नाम

(प्रियंका कुमारी)

नया नाम

(प्रियंका जायसवाल)

पति श्री उत्पल नयन प्रकाश.

(G-1123)

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मैंने अपना पुराना नाम निशांत ढेंगरे पिता श्री प्रशांत बौद्ध से बदलकर निशांत बौद्ध कर लिया है. विभागीय अभिलेखों एवं अन्यत्र जहाँ-जहाँ आवश्यकता है, मुझे निशांत ढेंगरे नाम के स्थान पर निशांत बौद्ध के नाम से जाना जावेगा.

पुराना नाम

(निशांत ढेंगरे)

नया नाम

(निशांत बौद्ध)

(G-1124)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जैनेश फूड प्रोडक्ट्स जिसका पंजीयन क्रमांक 01-1-01-0048-23, वर्ष 2023-24 दिनांक 30 अप्रैल 2023 को पंजीबद्ध है. उक्त फर्म का नाम मेसर्स जैनेश फूड प्रोडक्ट्स से बदल कर मेसर्स शर्मन्स इन्डस्ट्रीज हो गया है एवं उक्त फर्म में नये भागीदार श्री अभिषेक गर्ग नियुक्त हुए हैं. अब उक्त फर्म में वर्तमान में कुल 3 भागीदार हैं जो निम्न हैं. (1) श्री रवी गर्ग, (2) श्रीमति शिखा गर्ग, (3) श्री अभिषेक गर्ग. अब भविष्य में उक्त फर्म का नाम मेसर्स शर्मन्स इन्डस्ट्रीज रहेगा जिसमें तीनों भागीदार द्वारा फर्म का संचालन किया जाएगा.

M/s. Sharmans Industries

(RAVI GARG)

(Partner).

(G-1125)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर

मंदसौर, दिनांक 19 अप्रैल 2023

नियम-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962, का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष.

श्री रामजानकी मंदिर माली समाज ट्रस्ट बाहदरपुरा, तहसील व जिला मंदसौर.

प्र.क्र. 01-बी-113(4)-2023-24.-चूंकि श्री रामजानकी मंदिर माली समाज ट्रस्ट बाहदरपुरा, अध्यक्ष कैलाश पिता बद्रीलाल धनोतिया, निवासी मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा 4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22-05-2023 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः शिवलाल शाक्य पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 22-05-2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करे और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि समाप्ति पश्चात् प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

संपत्ति का विवरण

(अ) अचल संपत्ति : 2424/1 रकबा 0.523, सर्वे क्रमांक 2425 रकबा 0.052, सर्वे क्रमांक 2426 रकबा 0.334, सर्वे क्रमांक 2427 रकबा 0.063, सर्वे क्रमांक 2428 रकबा 0.010, सर्वे क्रमांक 2429 रकबा 0.125, सर्वे क्रमांक 2430 रकबा 0.010, सर्वे क्रमांक 2431 रकबा 0.010, सर्वे क्रमांक 2432 रकबा 0.209, सर्वे क्रमांक 2433 रकबा 0.157, सर्वे क्रमांक 2441 रकबा 0.125, सर्वे क्रमांक 2442 रकबा 0.209, सर्वे क्रमांक 2443 रकबा 0.345, सर्वे क्रमांक 2448 रकबा 0.042, सर्वे क्रमांक 2449 रकबा 0.251.

(ब) चल संपत्ति : निरंक

मंदसौर, दिनांक 21 अप्रैल 2023

नियम-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962, का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष.

संजीवनी मानव सेवा संस्थाना सीतामऊ रोड, सीतामऊ फाटक, मंदसौर, तहसील मंदसौर.

प्र.क्र. 03-बी-113(4)-2023-24.-चूंकि संजीवनी मानव सेवा संस्थाना सीतामऊ रोड, सीतामऊ फाटक, मंदसौर तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर द्वारा अध्यक्ष लालबहादुर जैन पिता केशरीमल जैन, निवासी अफजलपुर तहसील मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा 4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22-05-2023 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है, और उसका गठन करता/करती है.

अतः शिवलाल शाक्य पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर को लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 22-05-2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

संपत्ति का विवरण

(अ) अचल संपत्ति : निरंक

(ब) चल संपत्ति : निरंक

(G-1127)

शिवलाल शाक्य, पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक भैरून्दा (नसरुल्लागंज), जिला सीहोर (म.प्र.)

भैरून्दा, दिनांक 8 जून 2023

प्ररूप-5

[देखिये नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962, के नियम-5 (1) द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक भैरून्दा, जिला सीहोर के समक्ष.

क्र. 457-रीडर-2023-मुझे ज्ञात हुआ है यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है:-

इसलिये मैं, दिनेश सिंह तोमर, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक, भैरून्दा (नसरुल्लागंज) जिला सीहोर मेरे समक्ष दिनांक 31-05-2023 पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्वारा, सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितवद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	संपत्ति का वर्णन	चल सम्पत्ति	अचल सम्पत्ति	अन्य विवरण
श्री भीलट, भान बाबा मंदिर ग्राम रुजनखेड़ा तहसील-भैरुदा जिला सीहोर, मध्यप्रदेश	पूजा अर्चना की सामग्री तथा आने जाने वाले श्रद्धालुओं को रोकने एवं बैठने के लिये स्थान वगैरा	पूजा अर्चना की सामग्री, तथा आने जाने वाले श्रद्धालुओं को रोकने एवं बैठने के लिए स्थान है. इसके अलावा को चल संपत्ति वर्तमान में नहीं है.	पक्का भवन 60 फीट और चौड़ाई 50 फीट, जिसका उपयोग भीलट बाबा के मंदिर के रूप में किया जाता है तथा दूसरा पक्की छत्रीनुमा लम्बाई 40 फिट और चौड़ाई 50 फिट जिसका उपयोग भान बाबा के मंदिर के रूप में किया जाता है, तथा यज्ञ शाला जिसका क्षेत्रफल 15 बाई 20 वर्गफिट है, जो पक्की बनी हुई है, एक स्वागतद्वार बना हुआ है, एवं मंदिर की बिजली व्यवस्था हेतु मीटर लगा हुआ है, दान पेटियां, सीसीटीव्ही केमरा आदि है.	औसत सकल आय रु. 1,00,000/- अक्षरी एक लाख रुपये

(G-1128)

दिनेश सिंह तोमर, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समिति, जिला सीहोर (मध्यप्रदेश)

सीहोर, दिनांक 25 मई, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला सीहोर द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रं.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1	भारतीय साख सहकारी संस्था मर्या. सीहोर तह. व जिला सीहोर	1845/29.08.2016	588/09.05.2023

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं अतः म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ पुराना जिला पंचायत कार्यालय लुनिया चौराहा सीहोर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक प्रस्तुत

करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारो/साहूकारो/सदस्यो के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रको में दर्शायी गयी लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 25 मई 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(G-1129)

डी.के. आर्य, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

क्र./परि./2023/452

बड़वानी, दिनांक 1 मई 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (4) के अन्तर्गत]

मांझी मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित ठीकरी जिला बड़वानी पंजीयन क्रमांक 986 दिनांक 17/05/1995 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि/929/ दिनांक 28.01.2009 के द्वारा म0प्र0 सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री जे.एस. रावत पद सहकारी निरीक्षक जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के विशेष आमसभा दिनांक 31.01.2023 में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव कार्यालय को अपने पत्र दिनांक 10.02.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया है कि सदस्यों के हितों को दृष्टीगत रखते हुये संस्था को पुनर्जीवित किया जाना उचित प्रतिक्रिया होता है।

अतः मैं सुरेश सांवले सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला बड़वानी म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह -1 डी, दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए, मांझी मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित ठीकरी पंजीयन क्रमांक 986 दिनांक 17/05/1995 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था को कारोबार संचालन हेतु प्रस्तावित नौ सदस्यीय अस्थाई कमेटी का बैठन निम्नानुसार अनुमोदित करता हूं।

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. श्री देवकरण -एडू - अध्यक्ष | 6. श्री धन्नालाल - कुंदन -सदस्य |
| 2. श्री नारायण- बुदिया - उपाध्यक्ष | 7. श्री सुरेश -कालू -सदस्य |
| 3. श्री चम्पालाल -दगडू- सदस्य | 8. श्री गणेश- विश्राम -सदस्य |
| 4. श्री चम्पालाल -बुदिया - सदस्य | 9. श्री हिरदाराम -पुनिया |
| 5. श्री रमेश -दगडू - सदस्य | |

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संस्था की सदस्यता में वृद्धि कर निर्वाचन निर्धारित अवधि में करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01 मई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1130)

सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जून 2023—ज्येष्ठ 26, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)